

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12012024-251319
SG-DL-E-12012024-251319असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 383
No. 16]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945	[N. C. T. D. No. 383

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2024

फा.सं. 9(30)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/10180.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (अ) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (अ) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सतबारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए गौशाला का निर्माण करने के जन प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन रखते हैं। इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि खसरा सं0 269 (833.41 वर्ग मी0), 429 (1583.66 वर्ग मी0) एवं 427 (1505.57 वर्ग मी0) कुल मापन क्षेत्र 3922.64 वर्ग मी0 राजस्व एस्टेट सतबारी मे है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को, दिनांक 12/01/2024 की अधिसूचना फा0 सं0 फा0 सं0 9(30)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/10169-10179 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आंकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन-सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर

तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना-पत्र एवं जन-सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अशोक कुमार यादव, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th January, 2024

F. No. 9(30)/L&B/ LA/2023/10180.—In the exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire land for public purpose for construction of Gaushala Road for Delhi Development Authority at Satbari. The land to be acquired for this purpose of comprising Khasra Nos. 269 (833.41 sq. mtr.), 429 (1583.66 sq. mtr.) & 427 (1505.57 sq. mtr.) total admeasuring area 3922.64 sq. mtr. in Revenue Estate Satbari. The Indian Institute of Public Administration (IIPA), Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 has been assigned as the Social Impact Assessment Unit to carry out social impact assessment study in relation to aforesaid land vide Notification no. F. No. 9(30)/L&B/ LA/2023/ 10169-10179 dated 12.01.24.

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and public, survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan will be six months from date of publication of this notification in the official gazette and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in affected areas, and in the office of District Collector (South), M.B. Road, Saket, New Delhi.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ASHOK KUMAR YADAV, Dy. Secy. (Land & Building)